

CBSE | DEPARTMENT OF SKILL EDUCATION

SHORTHAND HINDI (SUBJECT CODE 826)

CLASS XI (SESSION 2021-2022) MARKING SCHEME FOR TERM -1

Max. Time Allowed: 90 Minutes (1½ Hrs.)

Max. Marks: 30

General Instructions:

1. Please read the instructions carefully
2. This Question Paper is divided into 03 sections, viz., Section A, Section B and Section C.
3. Section A is of 05 marks and has 06 questions on Employability Skills.
4. Section B is of 20 marks and has 25 questions on Subject Specific Skills.
5. Section C is of 05 marks and has 07 competency-based questions.
6. Do as per the instructions given in the respective sections.
7. Marks allotted are mentioned against each section/question.
8. All questions must be attempted in the correct order

SECTION A

Answer any 5 questions out of the given 6 questions on Employability Skills

(1 x 5 = 5 marks)

1.	उत्तर: ख सर्वनाम	1
2.	उत्तर: क आउटपुट/इनपुट	1
3.	उत्तर: ग GROSS DOMESTIC PRODUCTION	1
4.	उत्तर: क AUTOMATIC TELLER MACHINE	1
5.	उत्तर: ग आय की कोई गारंटी नहीं होती	1
6.	उत्तर: क संक्षिप्त ईमेल भेजना	1

SECTION B

Answer any 20 questions out of the given 25 questions

(1 x 20 = 20 marks)

7.	उत्तर: ख ज्यामितीय प्रारूप	1
8.	उत्तर: क 33	1
9.	उत्तर: ग क ख	1
10.	उत्तर: क 10	1
11.	उत्तर: ख लघु स्वरों	1
12.	उत्तर: ग 3	1

13.	उत्तर: ख दायीं तरफ	1
14.	उत्तर: क भाब्दाक्षर	1
15.	उत्तर: ख 2	1
16.	उत्तर: ख संक्षिप्ताक्षर	1
17.	उत्तर: क गहरे डै"।	1
18.	उत्तर: घ ल	1
19.	उत्तर: क वृत्त	1
20.	उत्तर: ख 4	1
21.	उत्तर: ख स व और सस	1
22.	उत्तर: ग वृत्त	1
23.	उत्तर: ख वृत्त	1
24.	उत्तर: ख 90	1
25.	उत्तर ख: 6	1
26.	उत्तर: ग x	1
27.	उत्तर: क 5 मिली मीटर	1
28	उत्तर: क रेखाओं का मिलान	1
29	उत्तर: ग दाये से बाये	1
30	उत्तर: घ बिन्दु	1
31	उत्तर: क हुक	1

SECTION C
(COMPETENCY BASED QUESTIONS)

Answer any 5 questions out of the given 7 questions

(1 x 5 = 5 marks)

32	उत्तर: ख 3	1
3	उत्तर: तीनों स्थानों पर	1
34	उत्तर: ख र को	1
35	उत्तर: क 3	1
36	उत्तर: ख 4	1
36	उत्तर: क पहले स्थान पर	1
38	उत्तर: क व	1